



पितर चालीसा

॥ दोहा ॥

हे पितरेश्वर आपको दे दियो आशीर्वाद,

चरणाशीश नवा दियो रखदो सिर पर हाथ।

सबसे पहले [गणपत](#) पाछे घर का देव मनावा जी,

हे पितरेश्वर दया राखियो करियो मन की चाया जी ॥

॥ चौपाई ॥

पितरेश्वर करो मार्ग उजागर,
चरण रज की मुक्ति सागर

परम उपकार पितरेश्वर कीन्हा,
मनुष्य योणि में जन्म दीन्हा।

मातृ-पितृ देव मनजो भावे,
सोई अमित जीवन फल पावे।

हिन्दीपथ.कॉम
जै-जै-जै पितर जी साईं,
पितृ ऋण बिन मुक्ति नाहिं।

चारों ओर प्रताप तुम्हारा,
संकट में तेरा ही सहारा।

नारायण आधार सृष्टि का,
पितरजी अंश उसी दृष्टि का।

प्रथम पूजन प्रभु आज्ञा सुनाते,
भाग्य द्वार आप ही खुलवाते।

झंझुनु में दरबार है साजे,
सब देवो संग आप विराजे।

प्रसन्न होय मनवांछित फल दीन्हा,
कुपित होय बुद्धि हर लीन्हा।

पितर महिमा सबसे न्यारी,
जिसका गुणगावे नर नारी।

तीन मण्ड में आप बिराजे,
बसु रुद्र आदित्य में साजे।

नाथ सकल संपदा तुम्हारी,
मैं सेवक समेत सुत नारी।

छप्पन भोग नहीं हैं भाते,
शुद्ध जल से ही तृप्त हो जाते।

तुम्हारे भजन परम हितकारी,
छोटे बड़े सभी अधिकारी।

भानु उदय संग आप पुजावे,
पांच अंजुलि जल रिझावे।

ध्वज पताका मण्ड पे है साजे,
अखण्ड ज्योति में आप विराजे।

सदियों पुरानी ज्योति तुम्हारी,
धन्य हुई जन्म भूमि हमारी।

शहीद हमारे यहाँ पुजाते,
मातृ भक्ति संदेश सुनाते।

जगत पित्तरो सिद्धान्त हमारा,
धर्म जाति का नहीं है नारा।

हिन्दू, मुस्लिम, सिख, ईसाई,
सब पूजे पित्तर भाई।

हिन्दू वंश वृक्ष है हमारा,
जान से ज्यादा हमको प्यारा।

गंगा ये मरुप्रदेश की,
पितृ तर्पण अनिवार्य परिवेश की।

बन्धु छोड़ ना इनके चरणों,
इन्हीं की कृपा से मिले प्रभु शरणा।

चौदस को जागरण करवाते,
अमावस को हम धोक लगाते।

जात जडूला सभी मनाते,
नान्दीमुख श्राद्ध सभी करवाते।

धन्य जन्म भूमि का वो फूल है,
जिसे पितृ मण्डल की मिली धूल है।

श्री पितर जी भक्त हितकारी,
सुन लीजे प्रभु अरज हमारी।

निशिदिन ध्यान धरे जो कोई,
ता सम भक्त और नहीं कोई।

तुम अनाथ के नाथ सहाई,
दीनन के हो तुम सदा सहाई।

चारिक वेद प्रभु के साखी,
तुम भक्तन की लज्जा राखी।

नाम तुम्हारो लेत जो कोई,
ता सम धन्य और नहीं कोई।

जो तुम्हारे नित पाँव पलोटत,
नवों सिद्धि चरणा में लोटत।

सिद्धि तुम्हारी सब मंगलकारी,
जो तुम पे जावे बलिहारी।

जो तुम्हारे चरणा चित्त लावे,
ताकी मुक्त अवसी हो जावे।

सत्य भजन तुम्हारो जो गावे,
सो निश्चय चारों फल पावे।

तुमहिं देव कुलदेव हमारे,
तुम्हीं गुरुदेव प्राण से प्यारे।

सत्य आस मन में जो होई,
मनवांछित फल पावें सोई।

तुम्हरी महिमा बुद्धि बड़ाई,
शेष सहस्र मुख सके न गाई।

मैं अतिदीन मलीन दुखारी,
करहु कौन विधि विनय तुम्हारी।

अब पितर जी दया दीन पर कीजै,
अपनी भक्ति शक्ति कछु दीजै।

॥दोहा॥

पित्तरीं को स्थान दो,
तीरथ और स्वयं ग्राम।
श्रद्धा सुमन चढे वहां,
पूरण हो सब काम॥

झुंझुनु धाम विराजे हैं,
पित्तरे हमारे महान्।
दर्शन से जीवन सफल हो,
पूजे सकल जहान॥

जीवन सफ जो चाहिए,

चले झुंझुनू धाम।

पितर चरण की धूल ले,

हो जीवन सफल महान॥



हिन्दीपथ.कॉम

अन्य चालीसा पढ़े

- [हनुमान चालीसा](#)
- [शिव चालीसा](#)
- [दुर्गा चालीसा](#)
- [शनि चालीसा](#)
- [गणेश चालीसा](#)
- [लक्ष्मी चालीसा](#)
- [राम चालीसा](#)
- [विष्णु चालीसा](#)
- [गायत्री चालीसा](#)
- [काली चालीसा](#)
- [भैरव चालीसा](#)
- [सरस्वती चालीसा](#)
- [कृष्ण चालीसा](#)
- [सूर्य चालीसा](#)
- [महावीर चालीसा](#)
- [साईं चालीसा](#)
- [महाकाली चालीसा](#)
- [तुलसी चालीसा](#)
- [बगलामुखी चालीसा](#)
- [गोरख चालीसा](#)
- [गोपाल चालीसा](#)
- [नवग्रह चालीसा](#)
- [रविदास चालीसा](#)
- [बाला जी चालीसा](#)
- [महालक्ष्मी चालीसा](#)
- [पार्वती चालीसा](#)

- [खाटू श्याम चालीसा](#)
- [रामदेव चालीसा](#)
- [राधा चालीसा](#)
- [विश्वकर्मा चालीसा](#)
- [पितर चालीसा](#)
- [बटुक भैरव चालीसा](#)
- [जाहरवीर चालीसा](#)
- [गिरिराज चालीसा](#)
- [नर्मदा चालीसा](#)
- [प्रेतराज चालीसा](#)
- [संतोषी चालीसा](#)
- [गंगा चालीसा](#)
- [शारदा चालीसा](#)
- [ललिता चालीसा](#)
- [अन्नपूर्णा चालीसा](#)
- [श्री वैष्णो चालीसा](#)
- [परशुराम चालीसा](#)
- [विन्ध्येश्वरी चालीसा](#)
- [ब्रह्मा चालीसा](#)
- [शाकम्भरी चालीसा](#)
- [राणी सती चालीसा](#)
- [गंगाराम चालीसा](#)
- [बालक नाथ चालीसा](#)
- [मोहन राम चालीसा](#)
- [शीतला चालीसा](#)